



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शाके 1941–सितम्बर 13, 2019
Bhadra 22, Friday, Saka 1941–September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 12, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9952 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Pirawa has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pirawa. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर पालिका पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)

प्रपत्र - क

वार्ड संख्या	वार्डों का परिक्षेत्र
01	कोटड़ी रोड से रामलाल मीणा के मकान से, मांगीलाल मीणा से पुरी लाल माली से सम्पूर्ण नई कॉलोनी को कवर करते हुये पदमनाथ स्वामी दुकानों तक, हाजी अ.रशीद के मकान से बालचन्द कलाल के मकान से होते हुये राजेन्द्र मीणा से होते हुये थाना चौक से होते हुये सम्पूर्ण थाने के सामने वाली कालोनी पार्वती कॉलोनी से मनोहर मीणा के मकान से गुड्डु कबाड़ी की दुकान तक व पीछे वाली सम्पूर्ण कॉलोनी व पी डब्लू डी , आई टी आई रेस्ट हाउस पी एच ई डी सिविल लाइन, तहसील, अस्पताल, बस स्टेण्ड, हायर सैकंडरी स्कूल, नगरपालिका कार्यालय से बुन्दु शाह, थाने के सामने कॉलोनी के बाद जुगनु कॉलोनी से स्टेट बैंक से सम्पूर्ण ब्रह्मान्द कॉलोनी से पी एच ई डी कार्यालय से भाया सैन की दुकान से सरवर वाले रईस मन्सुरी के मकान तक, व सम्पूर्ण मेघवाल बस्ती व रमेश खटीक के मकान से होते हुए अनवर पत्रकार से होते हुये सतीश जैन कपड़ा दुकान से कालुराम प्रजापति से होते हुये बन्टी नीलगर के मकान से होते हुए तेज बिहारी शर्मा के मकान से होते हुये अजीज नाजा के मकान से होते हुये दिलीप खटीक के मकान तक।
02	पशु चिकित्सालय के पास वालों मकानों को कवर करते हुये, पुरीलाल माली के मकान से मान सिंह मीणा के मकान से सम्पूर्ण आई टी आई के पीछे वाली कॉलोनी से इलियास भाई के मकान से बाईपास रोड होते हुये, हबीब भाई लेट मरीन वालों से अजीज भाई

	सर्वर वाले से जगदीश माली फुलमाला वाले, नानुराम बहादूर तक कालु सेठ की दुकान अशोक जैन हलवाई से शिवा भावसार से होते हुये पिंकेश व कमलेश भावसार से होते हुये सम्पूर्ण लाल बाई फुल बाई माता जी की गली मंगल भावसार के मकान से गायत्री मन्दिर होते हुये माली मन्दिर तक।
03	मदरसा शमशुल उलुम से दक्षिण दिशा की ओर रशिद भाई के मकान व सम्पूर्ण जागीरदार की हवेली, शफीउल्ला पिता काले खाँ नौलाई वाले के मकान से छम्मन आपा के मकान से होते हुये लतीफ भाई मन्सुरी के मकान से होते हुये मस्जिद निलगरान देवीलाल मेघवाल से पञ्चिम दिशा की और सम्पूर्ण मेघवाल बस्ती से होते हुये याकुब भाई लकड़ी वाले से पीरु हम्माल होते हुये काले खाँ से श्याम बिहारी टेलर के आगे तक गनी नेता से रशीद सैकेट्री के मकान से पश्चिम दिशा गली की और लीला बाई माली से होते हुये शफीक गौरी के मकान होते रशीद मन्सुरी से हेमराज राठौर से कैलाश दर्जी से कालु सेठ के मकान तक, श्री करीम अध्यापक के मकान से गुलाब बावड़ी होते हुये अमीन खाँ अशरफ खाँ टेलर के मकान से लुहारो के मकान कवर करते हुए युसुफ कवी के मकान से कोहिनूर स्टूडियो होते हुये चाद हाफिज सा० से , अनिल उपहार से छीतर कलाल तक, पारस जैन के मकान से रईस चक्की होते हुये दिनेश नाथ से शकुर भाई से राहत अली के मकान तक ।
04	बालकिशन भावसार के मकान से उत्तर दिशा की ओर सुब्हान भाई चुड़ी वाले से होते हुए श्यामपुरी के मकान तक एंव निसार लकड़ी वाले से मक्सुद सैकेट्री से होते हुए कैलाश पूरी के मकान से भैयया खाँ स्टॉक वालों से होते हुए सलाउद्वीन के मकान तक व पूर्व दिशा में रईस बाबू लखेरे के मकान से होते हुए मांगीलाल धोबी के मकान से होते हुए चॉद कलाल से होते हुए बोहरो की मस्जीद वाली सम्पूर्ण गली से होते हुए लियाकत टेलर के मकान से होते हुए रमेश पूरी महाराज एंव अहसान खाँ अध्यापक तक एंव सुन्दर लाल जैन सेठ की दुकान से उत्तर दिशा में दिनेश मामा से होते हुये पूर्न महाराज हिमाली के मकान से पूर्व की दिशा की ओर त्रिलोक चन्द जैन से होते हुए गोपाल माली के मकान तक व माता जी की बाड़ी को कवर करते हुए मगन गुर्जर होते हुए सम्पूर्ण मेघवाल बस्ती तक । कैलाश नाई से होते हुए मांगीलाल महाराज तक ।
05	मैनेजर साहब निरन्जन जैन के मकान से होते हुये चन्द्र ड्राइवर, तुलसीराम ड्राइवर, से नेमीचन्द जैन के मकान से होते हुये मनसुख जैन से होते हुये दुलीचन्द फैक्ट्री के मकान से होते हुये नयापुरा हेण्डपम्प के सामने से लक्ष्मी चन्द जैन से बन्शीलाल जैन से होते हुये अशोक अध्यापक के मकान से होते हुए प्रधुमन पिता चॉदमल के मकान से होते हुये गफूर कारीगर से होते हुये मनोज जैन बाबू तक । विडियो चोराहा विमल प्रकाश के मकान से बलवन्त सैकेट्री से होते हुये पूर्व दिशा की ओर सम्पूर्ण हरिजन बस्ती।
06	मनोहर सोनी अध्यापक से होते हुये कैलाश कोटड़ी वाले से सगीर मन्सुरी की दुकान से होते हुये अशोक जैन होटल वाले से विशाल सोनी के मकान से होते हुये नेमीचन्द गैलानी के मकान तक छगन जी कम्पाउण्डर के मकान से राजेन्द्र दूकान नाला होते हुये एजाज भाई से होते हुये नन्नु मन्सुरी से हनुमान धर्मशाला होते हुये बाबू खा मूछ वाले से होते हुये झन्नु लाल अध्यापक तक नेमीचन्द सरावगी से कम्पनी की दूकानों से होते हुये कोमल नाजुक से जगदीश टेलर से मोहन टेलर से हंसा बहीन जी से केवलचन्द सचौरा एंव

	रमेश जैन (नाला) के मकान तक, घासी राठौर से मन्सुरी के मकान होते हुये बंशी लाल व्यास के मकान तक।
07	पारस जैन होटलवाले से होते हुए लक्ष्मीचन्द्र जैन टी.वी. की दुकान से होकर शफीक खाँ से राजेन्द्र अद्यापक से सजन सिंह राणा की दुकान से गबा जी मेडिकल से सम्पूर्ण कटले को कवर करते हुये नये जैन मन्दिर होते हए अर्जुन जैन से होते हो हुये पोस्ट ऑफीस से होते हुये सीताराम महाराज से होते हुए महेश जैन अद्यापक तक व चन्द्र षेखर जैन से सुनारो का मन्दिर होते हुये राजेन्द्र सेकेट्री से रोड़ सुतार से हंसराज पाटीदार तक
08	पुरुषोत्तम महाराज से मोहन जी सुपर वाइजर से होते मोहन जी शर्मा अद्यापक सम्पूर्ण पदमनाथ मन्दिर की गली से मम्मू खाँ की सम्पूर्ण गली से होते हुये बाबू भाई चक्की वाले से तलाई की मस्जिद से बालू हलवाई की दुकान से रतन लाल कहार से होते हुये रामलाल मीणा के मकान तक व मांगी लाल कहार , मोहन कहार से प्रहलाद कहार एंव कालूराम अद्यापक से रमेशजैन टेन्ट वाले से विष्णु प्रजापति की दुकान से सम्पूर्ण कुम्हार गुवाड़ी से पीरु लखेरा से गोस्वामी स्टुडियो से होते हुये मुकेश संचौरा से पूनमचन्द्र जैन किराना वाले तक
09	रशीद मन्सूरी के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा मे मुमताज हाफीज से होते हुए चांद खाँ पठान एंव मुशताक हाफीज के मकान तक एंव अल्लादिया पठान के मकान से पश्चिम दिशा मे इसराईल कारिंगर से होते हुए दक्षिण मे शफीक के मकान तक एंव मोमनो की मस्जिद के सामने अजीज हाफीज के मकान से छोटे खाँ आरामशीन के मकान से होते हुए छोटे खाँ मिस्त्री के मकान तक एंव मस्जिद मोमनो से उत्तर दिशा मे बाबू खाँ बिजली वाले से होते हुये तेग अली बाबा तक एंव मस्तान शाह की मस्जिद से पश्चिम मे सम्पूर्ण पुरानी तहसील का भाग पटवारघर दुरसंचार विभाग एंव मस्जिद से होते हुए अब्दुल हफीज पटवारी से होते हुए मजीद खाँ उन्हैल वाले से होते हुए हाफीज फुरकान के मकान तक एंव पुर्व दिशा की और वहीद खाँ मिर्ची वाला के मकान से होते हुए अशफाक टेलर के मकान तक एंव पटवारघर के पीछे से नन्नू ठाकुर के मकान से सिराज भाई के मकान तक एंव गनी खाँ पटवारी के मकान से कन्जु नाकेदार के मकान तक एंव दक्षिण दिशा मे कमलेश जैन के मकान से नीचे का सम्पर्ण भाग एंव वहीद खाँ व्यापारी के मकान से उत्तर दिशा मे गफुर हम्माली के मकान तक।
10	तलाई मस्जिद दुकान से तकी भाई के मकान से मुस्तकीम अंसारी से होकर बालू मीणा से होकर वाहीद कारीगर से बाबूलाल सुल्तानी से देवीलाल मीणा तक व इसी गली मे शफीक टेलर के मकान तक । सईद खाँ मन्सूरी के मकान से दक्षिण दिशा मे मकसुद अली अद्यापक के मकान से सययद कल्लू के मकान तक मन्सूर अली के मकान से मसीउल्ला टेलर के मकान तक व भूरु खाँ पठान से होते हुए सुल्तान खाँ से होते हुए मोहम्मद खाँ तक । नजीर मास्टर के मकान से भूरु खाँ के मकान से सच्चे खाँ से मन्सूर पटवारी तक । नोशे खाँ अद्यापक से मेहराज भाई से होते हुए नजीर हाफीज साहब के मकान तक । शेख मोइनउद्दीन के मकान से दक्षिण दिशा की ओर अलीफ पठान से होते हुए सुल्तान लाला के मकान एंव नन्ने खाँ के मकान तक एव महमूद खाँ उंट वाले के मकान से साबीर भाई के मकान तक शब्बीर भाई मास्टर के मकान से होते हुए मजीद उल्ला के मकान

	तक।
11	कौमल चन्द जैन गैलानी वाले से डा. विकास से होते हुये जस्सु जैन से मोहन जी जैन से सुशील जागीरदार के मकान तक व जसवंत दाँता वाला से होते हूये विमल की दूकान से होते हुये कैलाशचन्द मेडिकल से योगेन्द्र जिन्दल से राजेन्द्र गुरु व बन्ने भाई से बन्धी लाल जैन से होते हूये सरपंच सा. की दूकान से सुरेश भांणु से सुनील कासलीवाल से मदन मोहन भण्डारी के पास तक एंव विनय टाइल्स वाले से होते हुये राजेन्द्र जैन से होते हूये जीवनधर कासलीवाल से राकेश घोसी के मकान तक।
12	रामभरोस शर्मा से कमल अध्यापक से दिनेश जैन अध्यापक के मकान से होते हुये भूपेन्द्र व्यास के सामने हरिकिशन सोनी से होते हुये धनसिंह जी की हवेली से होते हूये शरीफ खाँ के मकान से कैलाश सोनी से होते हुये प्रकाश भण्डारी तक। इकबाल टेलर के मकान से छितर खाँ की हवेली से देवीलाल के मकान तक वहीद अध्यापक के मकान से हफिज भाई के मकान से होते हुये बरकत आपा तक अताउल्ला के मकान से होते हुये नोशे खाँ बकरीवाले से पश्चिम दिशा मे पाटन वाले का मकान, अनवर भाई चक्की वाले से होते हुये पूनः अताउल्ला दूकान तक भूरु खाँ लाईन मैन से अशरफ भाई मास्टर से होते हुये नन्ने खाँ मन्सुरी पिपल्ली चौक तक।
13	सज्जन सिंह राणा के मकान से जैन मन्दिर होते हुए बद्रीलाल जी कम्पाउन्डर के मकान से होते हुए जस्सू काका एस टी टी वाले से होकर लक्ष्मीचन्द जैन से रावले को कवर करते हुए रमेशधोबी से होते हुए दिनेश जैन से होते हुए सुखमाल जैन से अर्जून सिंह पटवारी से होते हुए रकब चन्द के मकान से राजू मास्टर से होते हुए रूपचन्द जैन से प्रेम सिंह जैन अध्यापक के मकान तक पुनः केवलचन्द जैन मास्टर के मकान से मनोज कण्डर होते हुये मोहन सोनी से महावीर जैन से शंकर बिजलीवाले से व केवलचन्द राजस्थानी से महेश जैसे से अन्दर गली कवर करते हुये पुनः अमोलकचन्द पटवारी से विनोद वकील से पुनः कैलाशचन्द अध्यापक से न्यामत सिंह अध्यापकसे राजेन्द्र अध्यापक होते हुये महेन्द्र सिंह वकील तक
14	छप्पन जी महाराज के स्थान से सुखदेव जी वेध होते हुये, वल्लभ जी शर्मा से मन्ना जी मुंशी से रामनारायण अध्यापक से किशोर माली देवी लाल राठोर तक एंव गली मे शनि महाराज के मकान से होते हुये नानूराम बहादुर के मकान से कन्हैयालाल के मकान से बालू हलवाई के पुराने मकान से होते हुये सम्पूर्ण चौक व माली धर्मशाला के सामने वाली लाईन से बालचन्द मास्टर से राम लाल टेलर से मुख्य सडक पर टेलर की दुकान तक व देवी लाल माली के मकान से पुनः माली बस्ती मे अन्दर पीरु माली से होते हुये पीरु टेलर से पुनः पूर्व दिशा मे मांगी लाल से बलाईयो की गुवाड़ी होते हुये पुनः सामने दोनों और के मकानात को लेते हुये लक्ष्मीनारायण अध्यापक से मुख्य सडक मम्मद मंसूरी से कान्हा तेली होते हुये अरविन्द जैन से कोमल चन्द पटवारी जी के मकान तक।
15	हफिज साहब की चक्की से मांगलिक भवन होते हुये राजकुमार मास्टर से कालू हलवाई से प्रेमसिंह जैन एस0आई0 की गुवाड़ी को कवर करते हुये दिनेश जैन के मकान से जीवनधर अंकल से रुघनाथ सलावट से रामचन्द्र नाई तक व महावीर जी पण्डिया से ललित जी अध्यापक तक व सामने से , कन्हैयालाल पाटीदार से खाकी जी के मन्दिर तक , व से

	कोमल चन्द जैन पुनः अजीज पटवारी के मकान से रामनाथ जी होते दुलीचन्द होटल से बालू हलवाई से ब्राह्मणों की सम्पूर्ण गली होते हुये पुनः अजीज पटवारी के मकान तक एवं पुनः विश्णु अद्यापक से जैन मन्दिर होकर मुरलीशर्मा से होते हुए कवरी बाई माली के मकान तक। पुनः नासीर भाई से होते हुए घनश्याम भटनागर अद्यापक से होते हुए बगदूराम नाई के मकान तक।
16	फकीरिया धोबी से बालचन्द काश्तकार से होते हुये आर०एस०इ०बी० पावर हाउस तक व रोगिया देवी के चबुतरे से पूर्व दिशा की और शिवनारायण रावल की दुकान से होते हुये पुरा महाराज से होते हुये प्रकाशचन्द भटनागर से होते हुये कन्हैयालाल माली मिस्त्री से होते हुये पश्चिम मे दिशा मे शान्ती बाई गायरी से होते हुये स्वर्गीय पुरा हम्माली के मकान से नारायण लाल लूहार के मकान तक। पुनः जगदीश महाराज से 51 नम्बर बीड़ी वाले राधेश्याम जी के मकान से कालू कलाल व सामने भवंत लाल माली के मकान से कालू माली के मकान तक व पुनः जगदीश महाराज के सामने से सम्पूर्ण माली मन्दिर कवर करते हुये मोहन माली नन्ने खा बगीची वाले की गुवाड़ी से हीरा माली होते हुये मोहन जी नागरा होते हुये हाफिज भाई टेलर से उबेद उल्ला खाँ मास्टर साहब से गफुर खाँ से कालू माली से मनीश धोबी राजू धोबी से प्रहलाद सेधवार तक व नूर खाँ टेलर पूर्व पार्षद से कालू माली से होते हुये प्रभू सेधवार के मकान से होते हुये वहीद अंसारी लेथ मशीन वाले तक।
17	बालाद्वारी वाली सम्पूर्ण नई आबादी क्षेत्र लेते हुये रोगिया देवी चबुतरे के पीछे से कालू माली के मकान से होते हुये सम्पूर्ण गायरी गुवाड़ी मोती जी के मकान से गोकूल खटीक से होते हुये दक्षिण मे दिशा मे पूर्व दिशा का सम्पूर्ण भाग लेते हुये फकीरचन्द गायरी से होकर देवी लाल पायक के मकान रोड़ माली मकान होते हुये काना एंव अमर गायरी तक रामनारायण राठौर के मकान से होते हुये पश्चिम दिशा मे होते हुये दक्षिण संकीर्ण गली होते हुये रामचन्दर ठेकेदार से माधू जी चपारासी तक होते हुए भवंत लाल पटेल के मकान से होते हुये देवी लाल पायक के मकान से शिवनारायण रावल के मकान से होते हुये देवी लाल रावल की दुकान से अंसार भाई के मकान से होते हुये अतीक उल्ला के मकान तक एंव फईम उद्दीन आर०एस०इ०बी० मकान से होते हुये समस्त खटीको के समस्त मकान एंव सलामत उल्ला से होते हुये पूर्व दिशा मे रोड़ रावल के मकान से होते हुये बालचन्द माली के मकान से पन्ना माली के सम्पूर्ण चौक एंव राम लाल मेघवाल से दक्षिण दिशा का सम्पूर्ण भाग एंव भूरु खा के मकान तक एंव उत्तर दिशा मे शिव खटीक के मकान तक एंव चौक का सम्पूर्ण भाग।
18	स्वर्गीय मुफती नसरुद्दीन साहब के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की और नन्ने खाँ चमडे वाले से होते हुये स्वर्गीय असमत उल्ला खा के मकान तक एंव मदरसा से दक्षिण दिशा मे रमजानी खाँ बडोद वाले के मकान तक एंव यहा से कल्लूभाई बाड़ी वाले के मकान से होते हुये अतीक मोहम्मद नाकेदार के मकान तक एंव अकबर हुसैन हाशमी मास्टर साहब के मकान से दक्षिण दिशा होते हुये रमजानी कारीगर एंव मेहमद खाँ के मकान से होते हुये मजीद भाई हम्माल तक व गफकार मास्टर साहब के मकान तक एंव तकिये से सामने से पूर्व दिशा मे रजाउल्ला कण्डकटर के मकान तक एंव कैलाशचन्द

	कमलचन्द, व नन्द किशोर गंधर्व से पुनः प्रकाशचन्द, ललित कुमार, व जगदीशचन्द गंधर्व अध्यापक तक एंव शफीक खा कारीगर के मकान से नन्ने खाँ टेलर से होते हुये अलीम पटवारी तक एंव दक्षिण मे दिशा मे आबिद भाई ड्राईवर के मकान से रास्ता छोड़कर पश्चिम दिशा मे घोटेशाह टेलर के मकान से इलियास खाँ के मकान से बंशी सिकलीगर व बाबू मोगिया के मकान तक एंव बापू सिकलीगर के मकान से उत्तर दिशा से जफरउल्लाखा से होते हुये मन्जू दादा के मकान तक गिलू खा के मकान से पश्चिम मे दिशा मे नसरुल्ला खा के मकान से होते हुये गबू हाफिज से होते हुये शफीक भाई कण्ठर से होते से हुये पुनः दक्षिण मे दिशा मे सलीम मोहम्मद के मकान से होते हुये रोनक अली के मकान तक।
19	वाहिदनुर अध्यपाक के मकान से पश्चिम दिशा मे अशरफ मुंशी के मकान से पूर्व दिशा शकील ड्राईवर के मकान तक का सम्पूर्ण भाग एंव हबीब खाँ हवलदार के मकान से होते हुये शोकत हवलदार से होते हुये पुनः पूर्व दिशा की गली मे वहीद खा चक्की वाले का मकान एंव मजीद खाँ के मकान से शमशु खा के मकान से होते हुये मोअज्जम बेग पी0टी0आई0 से होते हुये अजीज मंसूरी से होते हुये नज्जू शाह के मकान से पूर्व दिशा मे अजीज खाँ मंसूरी के मकान तक का सम्पूर्ण भाग व न्यामतुल्ला सेकेट्री के मकान से झीरी मस्जिद से होते हुये कल्लूखाँ के मकान तक व पुनः कल्लू हवलदार के मकान से सल्वन उस्ताद के मकान से माकूल भाई की दुकान एंव मोबिन कसाई के मकान तक व मुंशीखाँ के मकान से पूर्व दिशा मे शेख जमील के मकान तक एंव नजीर खाँ ठेकेदार के मकान से होते हुये मकबुल खाँ के मकान से होते हुये शेख मोईद से होते हुये अज्जू खाँ के मकान से शेख सईद व परदे की कुईया को शामिल करते हुये मोहन निराला से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा मे शरीफ के मकान से उत्तर दिशा मे नसरुल्ला खाँ के मकान से पुनः पूर्व दिशा मे मेघवाल बस्ती को सम्मिलित करते हये व सोयतरोड से उत्तर दिशा मे शिवसांवरिया गैस एजेन्सी तक का सम्पूर्ण भाग।
20	बशीर भाई कम्पाउन्डर के मकान से मन्जुर भाई से होते हौए हिरा बलाई के मकान से होते हौए दयाराम के मकान से होते हौए सम्पूर्ण शरफुल्ला भाई वाली गुवाड़ी को कवर करते हुए जमील भाई से जाफर खाँ/काले खाँ के मकान से महफूज ड्राईवर तक व तकिये से मजीद भाई फलफूट वालो से होते हौए जामा मस्जिद तक व जामा मस्जिद के दक्षिण वाली गली मे सम्पूर्ण फकीरान बस्ती को कवर करते हौए शकीला बाजी के मकान से पीरु कलाल के मकान से कालू जी ड्राईवर के मकान तक। एवं जामा मस्जिद के सामने से सुल्तान शाह से होते हुए बगीया की मस्जिद से होते हौए कोने से उपर दिशा मे फारूक भाई के नये मकान से होते हौए रजाक भाई की आरामशीन से होते हौए पेट्रोल पम्प से होते हौए एवं पेट्रोल के सामने मकानो को कवर करते हौए सात ड्रम चौराहा तक।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका पिङ्डावा